

नगरपालिका भर्ती घोटाला

ईडी ने तृणमूल विधायक मदन मित्र की पत्नी से पूछताछ की

कोलकाता, 24 जुलाई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले धन शोधन जांच के सिलसिले में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा की पत्नी से पूछताछ की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

तृणमूल कांग्रेस विधायक की पत्नी अर्चना, अपने छोटे बेटे शुभरूप मित्र के साथ सुबह करीब 11 बजे सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं। एजेंसी के कार्यालय में जाने से पहले उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया। ईडी अधिकारी के अनुसार, जांचकर्ता उन दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जिन्हें अर्चना मित्र से जांच के सिलसिले में पेश करने के लिए कहा गया था। ईडी

तृणमूल विधायक की पत्नी अर्चना, अपने छोटे बेटे शुभरूप मित्र के साथ सुबह करीब 11 बजे सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं।

अधिकारी ने बताया कि जांच पैसे के लेन-देन का पता लगाने और यह सत्यापित करने पर केंद्रित की गई है कि क्या कथित अवैध भर्ती से हुई अपराध की कमाई लाभार्थियों या उनके सहयोगियों से जुड़े खातों में गई। जांच के हिस्से के तौर पर बैंक के रिकार्ड सहित वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय एजेंसी ने अर्चना के दोनों बेटों से पूछताछ की थी। ईडी

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ का मकसद जांच के दौरान पहले से इकट्ठा किए गए दस्तावेजी सबूतों की पुष्टि करना है। उन सभी लोगों को समन जारी किए गए हैं, जिनकी भूमिका या वित्तीय लेनदेन की पुष्टि की जानी है। ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि उत्तर 24 परगना जिले की टीटागढ़ नगरपालिका में लगभग 125 नियुक्तियां पैसे के बदले की गई थीं। जांच के दौरान, एजेंसी को कमरहटी के विधायक मदन मित्रा की सलिसता का पता चला, जिसके बाद उसने उससे जुड़ी कई ठिकानों पर तलाशी ली, जिसमें विधायक का आवास और कार्यालय भी शामिल हैं।

इस मामले की जांच के सिलसिले में दसगुना ने कहा कि राजनीतिक विरोध की आशंका के बावजूद सरकार उद्योगों और

बंगाल उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण करने को तैयार : दासगुप्ता

कोलकाता, 24 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने शुक्रवार को औद्योगीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया।

दासगुप्ता ने कहा कि राजनीतिक विरोध की आशंका के बावजूद सरकार उद्योगों और

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए तैयार है।


मचैट्स चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए दासगुप्ता ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए जमीन सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि निवेशकों की जरूरतों को

पूरा करने के लिए मौजूदा भूमि बैंक अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि जमीन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के पास उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं है। हम उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण करेंगे। हम जानते हैं कि राजनीतिक विरोध होगा, लेकिन हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.
Initial public offer of equity shares on the SME platform of BSE Limited ("BSE") (the "Stock Exchange") in compliance with Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").



(Please scan this QR code to view the Corrigendum)



Dhaval
Packaging Limited

DHAVAL PACKAGING LIMITED

(Formerly Known as Dhaval Packaging Private Limited)
Corporate Identity Numbers: U22203GJ2015PLC084963

Registered Office: Plot No. E 411, GIDC, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, 382110, India
Telephone No: +91 9898066258. Website: www.dhavalpackaging.com. E-Mail: info@dhavalpackaging.com
Contact Person: Jeet Alkeshkumar Shah, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MANISH NANAL DAGLA, DHAVAL NANAL DAGLA, SHAH AALAP DIPAK, JIGAR HARIVADAN CONTRACTOR, JIGAR MANUBHAI SHAH

NOTICE TO INVESTORS CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS AND PRICE BAND DATED JULY 23, 2026 (THE "CORRIGENDUM")

Our Company was incorporated on November 02, 2015 as 'Dhaval Packaging Private Limited, a private limited company under the provisions of the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, at Ahmedabad. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on August 14, 2025 and by our Shareholders in an Annual General Meeting held on September 08, 2025 and consequently the name of our Company was changed to 'Dhaval Packaging Limited' and a fresh certificate of incorporation dated October 08, 2025, consequent upon conversion to public company was issued by the Central Processing Centre on behalf of the jurisdictional Registrar of Companies. The corporate identification number of our Company was U25202GJ2015PLC084963. Subsequently, the Object Clause of the Memorandum of Association of our Company was amended pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on September 24, 2025, and by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on October 08, 2025. Consequent to such alteration, a fresh certificate of incorporation dated October 22, 2025, reflecting the change in the Object Clause, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on behalf of the jurisdictional Registrar of Companies. The Corporate Identification Number (CIN) of our Company has been changed to U22203GJ2015PLC084963.

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 37,48,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF DHAVAL PACKAGING LIMITED ("DPL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,88,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION") AND 1,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION AND EMPLOYEE RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 34,40,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE UPTO 27.29% AND 25.05%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH.

PRICE BAND: ₹ 92 TO ₹ 97 PER EQUITY SHARE OF ₹ 10/- EACH. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 9.20 TO 9.70 TIMES OF THE FACE VALUE AT THE LOWER PRICE BAND AND THE UPPER PRICE BAND RESPECTIVELY. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT HAS BEEN DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WAS ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF FINANCIAL EXPRESS (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF JANSATTA (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND EDITIONS OF GUJARAT PRAVAH DAILY (GUJARATI BEING REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND WAS MADE AVAILABLE TO SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

STAKEHOLDERS ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE FOLLOWING MODIFICATIONS TO THE RHP:

- In the section titled "Definitions and Abbreviations - Issue Related Terms", the definition of "Employee Discount" shall be read as follows:**
"Employee Discount" means a discount of ₹ 5 on the Issue Price as may be offered by our Company, in consultation with the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), to Eligible Employees, which shall be announced at least two Working Days prior to the Bid/Issue Opening Date."
- In the section titled "Definitions and Abbreviations - Issue Related Terms", the definition of "Issue Price" shall be read as follows:**
"Issue Price" means the final price at which the Equity Shares will be Allotted to ASBA Bidders pursuant to the Issue, in terms of the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Equity Shares will be Allotted to Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price in terms of the Red Herring Prospectus.
The Issue Price will be determined by our Company, in consultation with the BRLMs, on the Pricing Date in accordance with the Book Building Process.
Our Company, in consultation with the BRLMs, may offer a discount of ₹ 5 on the Issue Price to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion. Such Employee Discount, if any, shall be announced at least two Working Days prior to the Bid/Issue Opening Date."
- Issue Details in Brief**
In the section titled "Issue Details in Brief", Footnote (5) shall be read as follows:
"In the event of under-subscription in the Employee Reservation Portion (if any), the unsubscribed portion shall be available for allocation and Allotment, on a proportionate basis, to all Eligible Employees who have Bid in excess of ₹ 2,00,000, subject to the maximum value of Allotment to any Eligible Employee not exceeding ₹ 5,00,000. Any unsubscribed portion remaining thereafter in the Employee Reservation Portion shall be added to the Net Issue.
The Employee Reservation Portion shall constitute up to 5% of the post-Issue paid-up Equity Share capital. For further details, see "Issue Structure" beginning on page 303 of the Red Herring Prospectus.
Our Company, in consultation with the BRLMs, may offer a discount of up to ₹ 5 on the Issue Price to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion, which shall be announced at least two Working Days prior to the Bid/Issue Opening Date."
- Issue Structure**
 - Under the heading "Minimum Bid Size for QIBs", the relevant entry shall be read as:
"Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares such that the Bid size exceeds ₹ 2,00,000 and is for more than two Lots."
 - Under the heading "Maximum Bid Size for Non-Institutional Bidders", the relevant entry shall be read as:
"Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares, not exceeding the size of the Net Issue (excluding the QIB Portion), subject to the applicable limits prescribed for the Bidder."

The information above modifies and updates the information (as applicable) in the RHP. The RHP accordingly stands amended to the extent stated hereinabove and the above changes are to be read in conjunction with the RHP. Please note that this Corrigendum does not reflect any other changes that have occurred between the date of filing of the RHP and the date of the Corrigendum, and the relevant changes shall be reflected in the Prospectus as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchange.

This Corrigendum shall be available on the website of BSE at www.bseindia.com, the website of our Company at www.dhavalpackaging.com and the websites of the Book Running Lead Managers, namely, Rarever Financial Advisors Private Limited at www.rarever.in. All capitalized terms used in this Corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the meanings ascribed to them in the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
 RAREVER FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI registration number: INM000013217 Address: 807, Iconic Shyamal, Shyamal Cross Road, 132 Ring Road, Satellite, Manekbag, Ahmedabad, Gujarat, India, 380015 Telephone: +91 99981 23745 Email: ipo.dhavalpack@rarever.in Investor grievance email: ig@rarever.in Website: www.rarever.in Contact Person: Richi Shah / Prerak Thakkar CIN: U70200GJ2023PTC144374	 KFIN TECHNOLOGIES LIMITED SEBI Registration Number: INR000000221 Address: 301, The Centrum, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Kurla, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400070 Telephone: +91 40 6716 2222 Email: dhavalpack.ipo@kfinitech.com Website: www.kfinitech.com Contact Person: M Murali Krishna CIN: L72400MH2017PLC444072

For DHAVAL PACKAGING LIMITED
On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Jeet Alkeshkumar Shah

Company Secretary and Compliance Officer

DHAVAL PACKAGING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC and the Stock Exchange on July 23, 2026. The RHP is available on the website BSE at www.bseindia.com, the website of our Company at www.dhavalpackaging.com, and the websites of the Book Running Lead Managers, namely, Rarever Financial Advisors Private Limited at www.rarever.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see 'Risk Factors' on page 22 of the RHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, when filed. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (a) within the United States solely to persons who are reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (b) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering in the United States.

पश्चिम बंगाल में स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए समिति बनाई

कोलकाता, 24 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा के अनुसार कक्षा एक से 12 तक की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई। स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से जुड़ी समिति प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मौजूदा पाठ्यचर्या की समीक्षा करेगी। साथ ही, वह इनमें ऐसे सुधारों का सुझाव देगी, जिनसे यह एनईपी 2020, आधारभूत स्तर के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (2022), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (2023) और आज के दौर के शिक्षण-अध्ययन के तरीकों के अनुरूप हो सकें।



सैल SAIL





अखिलभारत • परंप्रित विजय केवल शक्तिशाली उद्योग है।

इस्पाती संकल्प
से बनता है राष्ट्र

SAIL स्टील - भारत का गौरव

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का सार

क्र. स.	विवरण	एकल			
		30 जून, 2026	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2026	30 जून, 2025	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालनो से कुल आय	26245.64	30813.45	25921.46	110810.24
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादालम्बक मदों के पूर्व)	2302.80	2653.46	889.76	5002.08
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)(अपवादालम्बक मदों के परश्चात)	2158.79	2322.68	889.76	4333.86
4	अवधि के लिए कर परश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	1636.00	1679.51	685.48	3233.48
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इसमें अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर परश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर परश्चात) शामिल हैं]	1524.36	1958.91	567.86	3199.83
6	धुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकेित मूल्य ₹10 /- प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
7	आरक्षित (पूर्ण मूल्योक्तन आरक्षित छोड़कर)	55589.19	54064.83	52093.74	54064.83
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	235.10	235.10	235.10	235.10
9	शुद्ध मूल्य	59719.72	58195.36	56224.27	58195.36
10	धुक्ता ऋण पूंजी / बकाया ऋण	31969.95	31921.62	36074.92	31921.62
11	ऋण इक्विटी अनुपात	0.54	0.55	0.64	0.55
12	अर्जन प्रति शेयर (₹10 /- प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं)				
	1. मूलमूल (₹)	3.96	4.07	1.66	7.83
	2. डाइल्यूटेड (₹)	3.95	4.07	1.66	7.83
13	डिविडेंड रिटर्न	-	-	2.06	-
14	कच्ची सेवा कवरेज अनुपात (संख्या)	1.66	7.26	2.74	3.84
15	खाज सेवा कवरेज अनुपात (संख्या)	4.80	5.25	2.94	2.86

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम का सार

क्र. स.	विवरण	समेकित			
		30 जून, 2026	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2026	30 जून, 2025	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालनो से कुल आय	26245.67	30813.49	25921.76	110810.84
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादालम्बक मदों के पूर्व)	2330.69	2631.58	967.81	5173.73
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)(अपवादालम्बक मदों के परश्चात)	2186.68	2501.80	967.81	4505.51
4	अवधि के लिए कर परश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	1644.05	1835.47	744.58	3372.80
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इसमें अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर परश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर परश्चात) शामिल हैं]	1586.29	2174.42	626.58	3433.65
6	धुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकेित मूल्य ₹10 /- प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
7	आरक्षित (पूर्ण मूल्योक्तन आरक्षित छोड़कर)	57807.86	56225.36	55401.67	56225.36
8	अर्जन प्रति शेयर (₹10 /- प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं)				
	1. मूलमूल (₹)	3.98	4.44	1.80	8.17
	2. डाइल्यूटेड (₹)	3.98	4.44	1.80	8.17

टिप्पणी

- इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट द्वारा की गयी है और 24 जुलाई, 2026 को अप्रतिष्ठित संवित्त वेबसाई में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गए हैं।
- उपरोक्त 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है, जिसे लेबी (एनईपी) द्वारा जारी किया गया है। इसके लेबी (एनईपी) द्वारा जारी किया गया है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप एनईपी और बीएसई की वेबसाई पर उपलब्ध है।

कुछ एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-

(श्री. अशोक कुमार पंडा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सैल

Registered office : Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in,
Website: www.sail.co.in
CIN: L27109DL1973GO1006454





SAILsteel



Steel Authority of India Limited



SAILsteelofficial



Steel Authority of India Limited